



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 887]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 25, 2019/फाल्गुन 6, 1940

No. 887]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 25, 2019/PHALGUNA 6, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2019

का.आ. 1018(अ).—केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 58) की धारा 109 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मोटर यान (अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट) आदेश, 2018 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश जारी करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -


- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मोटर यान (उच्च सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट) संशोधन आदेश, 2019 है।
- (2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. मोटर यान (अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट) आदेश, 2018 में, --


- (i) खंड 4 में "बेचे जाने वाले नए वाहनों" शब्दों के स्थान पर "निर्मित यानों" शब्द रखे जाएंगे;
- (ii) उपाबंध के स्थान पर निम्नलिखित उपाबंध रखा जाएगा, अर्थात्:

उपाबंध

1. HOLOGRAM (FRONT AND REAR REGISTRATION PLATE)



2. STICKER (THIRD REGISTRATION PLATE)



[फा. सं. आरटी-11028/01/2018-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव



टिप्पण: मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 6 दिसंबर, 2018 में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th February, 2019

S.O. 1018(E).—In exercise of the power conferred by the sub-section (3) of section 109 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government in the Ministry of Road Transport and Highways hereby makes the following order to amend the Motor Vehicles (High Security Registration Plates) Order, 2018, namely:-

1. Short title and commencement.-
 - (1) This Order may be called as the Motor Vehicles (High Security Registration Plates), Amendment, Order, 2019.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Motor Vehicles (High Security Registration Plates) Order, 2018,-
 - (i) In clause 4, for the words, “a new vehicle to be sold”, the words “the vehicles manufactured” shall be substituted;
 - (ii) For the Annexure, the following Annexure shall be substituted, namely:

ANNEXURE**1. HOLOGRAM (FRONT AND REAR REGISTRATION PLATE)****2. STICKER (THIRD REGISTRATION PLATE)**

[F. No. RT-11028/01/2018-MVL]
PRIYANK BHARTI, Jt Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated 6th December, 2018.